

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022 — माघ 13, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में :—

नियम-4 के उप-नियम (तीन)—आयु सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

“(अ) अधिकतम आयु— भारतीय उपचर्या परिषद्/राज्य उपचर्या परिषद् नियम अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है। उन पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।” प्रस्थापित किया जाये।

(ब) का लोप किया जाता है।

नोट:— आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।

स्पष्टीकरण :— 1 एवं 2 का लोप किया जाता है।

नियम-4 के उप-नियम (चार) में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें:—(भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद् के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होंगे।)

के स्थान पर

“जिन पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद् द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक निर्धारित होंगे उन पाठ्यक्रमों के लिए वे निर्देश लागू होंगे” प्रतिस्थापित किया जाये।

नियम-4 के उप-नियम (चार) के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए:—

(1) "अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अरक्षित श्रेणी (अ.ज. अ.ज.ज.अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु प्रवेश परीक्षा न्यूनतम अर्हताकारी अंक 15% होगा, एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हताकारी अंक 20% होगा"

नियम-4 के उप-नियम (छः)-प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूची:-

"प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होंगे तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा" का लोप किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.